

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ९८]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च २३, १९६८/चैत्र ३, १९९०

No. 98]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1968/CHAITRA 3, 1990

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT
AND COOPERATION**

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March 1968

S.O. 1122.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby establishes a Board of Management for the State of Orissa and specifies that the head office of the said Board shall be at Bhubaneswar (Orissa).

[No. F. 3-2/67-FCC.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ERRATA

In the Ministry of Home Affairs Notification No. 228/1/68-AVD-II(1) and Order No. 228/1/68-AVD-II(2), both dated 18th February, 1968, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated 18th February, 1968, S.O. No. of the notification and Order should be read as “659” and “660” instead of “559” and “560” respectively.

(385)

